

Date: - 28.05.2021

To, **Department of Corporate Services** Bombay Stock Exchange Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 '

Subject: - Filing of clipping of the Audited Financial Results Published in the newspaper for the Year ended on 31.03.2021 as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(Scrip Code: 531449)

Dear Sir,

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of News Papers- Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English News paper) dated 28.05.2021 in which Audited Financial Results of the company has been published for the Year ended 31.03.2021, as approved by the Board of Directors of the company in their meeting held on 27.05.2021

This is for yours information and record.

For GRM Overseas Limited

Balveer Singh Company Secretary M. No. 59007

4 जनसत्ता, 28 मई, 2021 दिल्ली/आसपास

कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए विशेष दल गठित

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली 27 मई।

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने के लिए दिल्ली में एक विशेष दल तैयार किया गया है। इस दल की सीधी निगरानी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सत्य गोपाल करेंगे और इस टीम में कुल 13 सदस्य शामिल होंगे। इस बाबत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंघला ने देर रात आदेश जारी किए हैं। ये आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए गए है।

आदेशों के मुताबिक इस व्यवस्था से अस्पतालों में कर्मचारी, डॉक्टर, आइसीयू बिस्तर व अन्य उपकरण

समेत अन्य सेवाओं को सुनिश्चित करने में यह टीम मददगार साबित होगी। व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई गडबडी नहीं हो। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव डॉ. आशीष चंद्रा, मंडलायुक्त संजीव खिरवाल भी इस टीम में जोड़े गए हैं। ये सभी नोडल अधिकारी दिल्ली की सभी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए तैनात रहेंगे। इनके पास अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवा आपूर्ति आदि की व्यवस्थाएं रहेंगी।

इस टीम का काम केवल स्वास्थ्य सेवाओं की अन्य आवश्यक चीजों के प्रबंधन से भी जुड़ा रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की कमी से लोगों को नहीं जूझना पड़े। इससे पहली लहर में आम जनता को पहली बार ऑक्सीजन व

ऑक्सीजन सिलेंडर आदि तक के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। संकट यह भी था कि इन सामान को किस प्रकार तक अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। इस बार आदेशों में परिवहन व्यवस्था का प्रबंधन भी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हो। यह टीम कम से कम आपात स्थिति के लिए 10 हजार कुशल पैरामेडिकल स्टाफ का भी प्रबंधन करेगी और इस व्यवस्था से सिविल डिफेंस को भी जोडा जाएगा ताकि आपदा प्रबंधन में आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। इन आदेशों की प्रति सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजी गई है।

टूलिकट विवाद पर दिल्ली पुलिस का बयान

ट्विटर बनना चाहता है, जांच करने और फैसला

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 27 मई।

कांग्रेस और भाजपा को लेकर चल रहे टलिकट विवाद पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए ट्विटर पर निशाना साधा है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि ट्विटर का बयान झुठा और कानूनी जांच में बाधा डालने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस का यह सख्त बयान ऐसे वक्त आया है, जब ट्विटर ने पुलिस पर डराने-धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल करने की बात कहते हुए कहा है कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह सरासर झूट है।

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता चिन्मय बिश्वाल ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये बयान न केवल मिथ्या है, बल्कि निजी उद्यम के कानुनी जांच को बाधित करने की भी कोशिश है। सेवा की शर्तों की आड़ में ट्विटर ने सच का निर्णय करने का खुद फैसला कर लिया। पुलिस के बयान के मुताबिक ट्विटर जांच प्राधिकार और फैसला सुनाने वाला प्राधिकार, दोनों बनना चाहता है। लेकिन इनमें से किसी के लिए भी कानूनी स्वीकृति नहीं है। बिश्वाल ने कहा कि हमारे देश में एक कानूनी प्रक्रिया है। किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार केवल पुलिस को है और फैसला सुनाने का काम हमारे देश में अदालतें करती हैं। पर ट्विटर ने जिस प्रकार से व्यवहार किया है। उससे साफ होने की कोई जानकारी है तो उसे पुलिस से सांझा करें,

कब्जे की

कर्जदार / गारंटर

किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार केवल पुलिस को है और फैसला सुनाने का काम हमारे देश में अदालतें करती हैं।

-चिन्मय बिश्वाल, दिल्ली पुलिस प्रवक्ता

और फैसला भी खुद ही सुनाता है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने जो शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत के आधार पर 'टूलिकट' मामले में आरंभिक जांच दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि इसलिए ट्विटर का यह प्रर्दिशत करने के प्रयास पूरी तरह गलत हैं कि भारत सरकार के इशारे पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि ट्विटर का बयान ऐसे समय में महज सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश है। उसने न केवल कानून का पालन करने से मना कर दिया, बल्कि साक्ष्य होने के बावजूद इसे कानूनी प्राधिकार के साथ साझा करने से इनकार किया।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि टविटर एक सार्वजनिक मंच है, इसलिए उसे अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखना चाहिए। पुलिस कांग्रेस की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने ट्विटर के उन आरोपों को गलत बताया जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह सरकार के इशारे पर काम कर रही है। यदि ट्विटर के पास ट्रलिकट के मैनिपुलेटेड होता है कि वह ख़ुद ही किसी पक्ष का जांच करता है लेकिन ट्विटर के अधिकारी जांच से भाग रहे हैं।

31 मा	जीआरएम अ CIN:L748: पंजी. कार्यालय : 128, प्रथम त ई.मेल : grmrice1@gmail.com वेबसाईट : www.grn र्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित तथा स्टैण्डएलॉन वित्तीय प	99DL1995PLC0 ल, शिवा मार्क nrice.com फो	64007 टि, पीतमपुर न नं011-4	रा, उत्तरी वि 17330330 पं				7 (1) (ख)	के अनुसार
		<i>(i)</i>	ਹ <i>ੈ</i> ਸਟ	एलॉन			ani	कित	शि लाखों में)
क्रम सं	विवरण	समाप्त तिमाही मार्च 31, 2021	समाप्त तिमाही मार्च 31, 2020	समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2021	समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2020	समाप्त तिमाही मार्च 31, 2021	समाप्त तिमाही मार्च 31, 2020	समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2021	समाप्त वार्षिक मार्च 31, 2020
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	28,705.09	21,396.97	78,349.88	77,933.47	30,170.09	21,945.37	80,581.94	78,997.16
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (कर, वशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदो से पूर्व)	1,324.74	2,905.81	4,915.37	4,750.91	2,286.41	2,816.15	5,884.97	4,304.66
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (वशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदो के बाद)	1,324.74	2,905.81	4,915.37	4,750.91	2,286.41	2,816.15	5,884.97	4,304.66
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदो के बाद)	981.97	2,237.77	3,662.73	3,616.23	1,853.13	2,148.11	4,541.82	3,169.98
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर से बाद) लाम/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शमिल)]	983.84	2,239.26	3,665.44	3,617.34	1,818.30	2,164.08	4,414.09	3,137.95
6	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रू 10/- प्रति)	394.00	368.95	394.00	368.95	394.00	368.95	394.00	368.95
7	आरक्षित् (पूर्व वर्श के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त		-	13,351.57	9,608.37	(E)	9.5%	12,912.10	8,428.11

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com कंपनी की वेबसाईट www.grmrice.com पर उपलब्ध है। जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

26.41

26.41

60.65

60.65

98.40

98.40

98.01

98.01

हस्ता/-अतुल गर्ग प्रबंध निदेशक DIN:- 02380612

48.81

48.81

यूनियन बैंक Andhra

आय प्रति शेयर (रू 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)

1.) बेसिक

तिथि : 27/05/2021

2.) डायल्यूटिड

(तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा)

58.22

58.22

एम-93, क्नॉट सर्कस नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23418720/23/29,

118.49

118.49

85.92

85.92

ईमेल – cb0606@unionbankofindia.com

नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत्

आरक्षित मूल्य (रु.)

नीलामी की

बजे तक (10 मिनट के

असीमित विस्तार के साथ

₹. 1,00,000/-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 / 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो क्छ भी हैं'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता यूनियन बँक ऑफ इंडिया से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतू नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी

नीलामी की जाने वाली

豖.	कर्जदार और गारंटर का	नालामा का जान वाला	रिथति	से वसूल की जाने	घरोहर राशि	नालामा का तिथि एवं
सं.	नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	भौतिक या सांकेतिक	वाली राशि (रु.)	धराहर साश बोली वृद्धि राशि	समय
	मैसर्स सान्को इंडस्ट्रीज लि., डी—161, सूरजमल विहार, कड़कड़दूमा कोर्ट के पास, नई दिल्ली—110092, और 9/51, बाजार गली, विश्वास नगर, शाहदरा—110032, और: फ़ैक्ट्री गाँव सट्टीवाल, तेह. पाँटासाहिब, हि.प्र.—173025, श्री संजय गुप्ता (निदेशक / गारंटर), श्री सिद्धांत गुप्ता (निदेशक और गारंटर), श्रीमती रीता गुप्ता (निदेशक और गारंटर), श्री ओपी गुप्ता (गारंटर), मृतक के बाद से कानूनी वारिस द्वारा प्रतिनिधित्व (1) श्रीमती शकुंतला गुप्ता (2) श्री संजय गुप्ता (3) श्रीमती सीमा जैन एवं अन्य,	(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 51, ब्लॉक—9, सम्पत्ति नं. 9/51, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, खसरा नं. 2383/1849/69, 3760/2382/1849/69/1 में से, भूतल पर एक हॉल की सीढ़ी और प्रथम तल पर एक हॉल की सीढ़ी, गाँव कडकडडूमा, बाजार गली की आबादी, विश्वास नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110032 में स्थित, (दिनांक 12.04.1989 के विलेख की बिक्री में निर्दिष्ट संपत्ति का विवरण) चौहद्दी: उत्तर में — 20फीट गली, दक्षिण में — 30फीट रोड, पूरब में — अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में — अन्य की सम्पत्ति	सांकेतिक	बकाया राशि ₹ 34,91,07,985.48 दिनांक 01. 07.2019 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	ক. 1,63,00,000/- ক. 16,30,000/- ক. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	सुश्री मानसी गुप्ता (गारंटर), संजय गुप्ता (एचयूएफ) (गारंटर), श्रीमती शकुंतला गुप्ता (गारंटर)	(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 56, ब्लॉक नं. सी, बेसमेंट, भूतल और (सीढ़ी और लिफ्ट क्षेत्र को छोड़कर) प्रथम तल, दिल्ली स्कूल टीचर को—ओप. हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. के लेआउट प्लान के अंतर्गत, जिसे अब सूरजमल विहार कहते हैं गाँव कडकडडूमा क्षेत्र में, दिल्ली—110092 में स्थित, क्षेत्रफल 161.85 वर्ग मी. (दिनांक 06.07.1995 के विलेख की बिक्री में निर्दिष्ट संपत्ति का विवरण), चौहदी: उत्तर में — प्लॉट नं. 57, दक्षिण में — प्लॉट नं. 55, पूरब में — सर्विस लेन, पश्चिम में — 30' चौडी रोड	सांकेतिक कब्जा		रु. 4,95,00,000/- रु. 49,50,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
		(3) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति डी—161, भूमि क्षेत्रफल 126.83 वर्ग मी. या 151.69 वर्ग गज, इसकी सभी संरचनाओं के साथ जो भी निर्माणित है, कनेक्शन के साथ, दिल्ली स्कूल टीचर को—ओप. हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. के लेआउट प्लान के अंतर्गत, जिसे अब सूरजमल विहार कहते हैं, गाँव कडकडडूमा क्षेत्र में, बनाम शाहदरा, दिल्ली—110092 में स्थित, (प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल, छत के अधिकार सहित), (दिनांक 25.05.2010 के विलेख की बिक्री में निर्दिष्ट संपत्ति का विवरण) चौहदी: उत्तर में — सर्विस लेन, दक्षिण में — 150फीट चौडी रोड, पूरब में — प्लॉट नं. डी—160, पश्चिम में — प्लॉट नं. डी—162	सांकेतिक कब्जा		रु. 4,90,50,000/- रु. 49,05,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	कर्जदारः मैसर्स जेएमडी ऑयल्स प्रा. लि., 5 / 24, रमेश नगर, नई दिल्ली—110015 श्री गुलशन ढींगरा, 5 / 1—बी, रमेश नगर, नई दिल्ली—110015 श्री रामजी लाल शर्मा (निदेशक), श्रीमती सीमा ढींगरा, श्री नरेश ढींगरा (निदेशक), श्रीमती जमना देवी ढींगरा, श्रीमती पिंकी ढींगरा, श्री कृष्ण ढींगरा (निदेशक) श्रीमती पलक ढींगरा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति द्वितीय तल, छत के अधिकार सहित, एच—68, बाली नगर, द्वितीय तल, नई दिल्ली—110015 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कृष्णा कुमार ढ़ीगरा पुत्र जमना राम ढ़ीगरा के नाम पर है। क्षेत्रफल 216 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर / पश्चिम में — प्लॉट नं. एच—67, दक्षिण / पूरब में — 15' चौडा रोड, उत्तर पूरब में — 15' चौडा रोड और मेन रोड, दक्षिण पश्चिम में — 15' चौडा रोड	भौतिक कब्जा	₹ 55,23,92,478,44 दिनांक 20.09.2015 तक और दिनांक 20.09.2015 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	रु. 2,30,00,000/- रु. 23,00,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
3	उधारकर्ता(ओ) मैसर्स एम आर चेन्स् प्रा. लि., इसके निदेशकों मुनि राम वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व 1. 1245, द्वितीय तल, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली 110006. 2. 1139, द्वितीय तल, कुचा महाजनी, चांदनी चौक, दिल्ली 110006.	(1) व्यवसायिक सम्पत्ति — प्रथम तल, सम्पत्ति नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक — पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616,गली नं. 34, बस्ती रैघर, सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मुनी राम वर्मा के नाम पर है।	सांकेतिक कब्जा	₹ 34,34,10,426.37 और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित	रु. 1,93,00,000/- रु. 19,30,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
		(2) व्यवसायिक सम्पत्ति — द्वितीय तल, (बिना छत / टैरेस अधिकार के) सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3160, वार्ड नं. XVI, ब्लॉक — पी, प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 2746/2616,गली नं. 34, बस्ती रैघर, सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मुनी राम वर्मा के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में — गली नं. 33, दक्षिण में — लेन नं. 34, पूरब में — मेन सरस्वती मार्ग, पश्चिम में — सम्पत्ति नं. 3159			रु. 1,19,00,000/- रु. 11,90,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	कर्जदार — मैसर्स जेएस मेडिमैक्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 73, गुलाबी बैग इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली—110007 इसके निदेशकों श्री तुषार तोमर, श्री जितेंद्र नलवा द्वारा प्रतिनिधित्व बंधककर्ताः मैसर्स जेएस मेडिमैक्स प्रा. लि., श्री डीपीएस तोमर पुत्र श्री शंकर सिंह, श्री जितेन्द्र नलवा पुत्र श्री सत्य पाल नलवा, श्रीमती सुमन नलवा पत्नी श्री तुषार तोमर, श्री महीपाल सिंह यादव पुत्र श्री माखन लाल यादव, प्रबंध		भौतिक कब्जा	₹ 28,71,99,509.39 दिनांक 31.12.2017 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	হ. 1,60,00,000/- হ. 16,00,000/- হ. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01:00 बजे से अर्पा. 05:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	निदेशक, मैसर्स ऋषम हाइट्स लि.	रिहायशी सम्पत्ति डी—2/13, प्लॉट नं. 23, केएच—16/25, गाँव डाबरी, वशिष्ट पार्क, नई दिल्ली—110046 में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री महिपाल सिंह यादव के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर में — प्रवेश और 20—0' चौडा रोड, दक्षिण में — सर्विस लेन, पूरब में — सम्पत्ति नं. डी—2/11, पश्चिम में — सम्पत्ति नं. डी—2/15	भौतिक कब्जा		रु. 2,65,00,000/- रु. 26,50,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01:00 बजे से अर्पा. 05:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	उधारकर्ताः मैसर्स एक्सक्लूसिव ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईआरपी के तहत) आरपी आकाश सिंघल द्वारा 31/3203 बीडन पुरा करोल बाग, नई दिल्ली—110005, और: प्लॉट नं. 27, केआईएडीबी सब लेआउट बोमसंड्रा इंडस्ट्रियल एरिया फेज— IV अनेकल तालुक बैंगलोर—560099 गारंटर्स 1. श्री राजीव अग्रवाल (मृतक के बाद से) इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व क सुश्री रिद्धि अग्रवाल, ख. सुश्री जाहवी अग्रवाल, ग. श्री क्रिश अग्रवाल इसके प्राकृतिक अभिभावक मीनू अग्रवाल के माध्यम से, घ. श्रीमती मीनू अग्रवाल, सभी निवासीः ई—38, ब्लॉक—ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट— I, नई दिल्ली 110048	दुकान नं. 6, भूतल, क्षेत्रफल 105 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3203, खसरा नं. 2721 / 2616, वार्ड नं. 16, ब्लॉक पी, गली नं. 31, बस्ती रैघर, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, चौहदी : पूरब में — खसरा नं. 2720 / 2616, पश्चिम में — रोड, उत्तर में — बीडनपुरा गली नं. 31, दक्षिण में — बीडनपुरा गली नं. 32	सांकेतिक कब्जा	₹ 37,06,86,598.93 दिनांक 18.11. 2017 तक और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	₹. 42,00,000/- ₹. 4,20,000/- ₹. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	 मैसर्स यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स (कर्जदार) 309, तृतीय तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली—110017 मैसर्स यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स (कर्जदार फर्म) इसके पार्टनर्स श्री सुधांशु नारंग और श्री हरीश नारंग, निवासी : डी—30, अंसल विला, सतबरी, महरौली, दिल्ली, 110074 श्री सुधांशु नारंग (पार्टनर / गारंटर) श्री हरीश नारंग (पार्टनर / गारंटर) श्री समर्थ नारंग (गारंटर) 6, श्रीमती संगीता नारंग (गारंटर) 	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ऑफिस स्पेस नं, डीएसओ — 309, तृतीय तल, वहु मंजिला बिल्डिंग जिसे अब "साउथ कोर्ट डीएलएफ साकेत" कहते हैं, प्लॉट की भूमि पर निर्मित, क्षेत्रफल 9492 वर्ग मी, या व्यवसायिक प्लॉट नं, ए—1 साकेत जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली में स्थित, जिसका प्लिथ क्षेत्रफल 100.45 वर्ग मी. और सुपर क्षेत्रफल 153.969 वर्ग मी., (1657 वर्ग फीट),, यह सम्पत्ति मैसर्स यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स के नाम पर है। (कंवेयंस ढीड दिनांक 08.08.2013 में निर्दिष्ट संपत्ति विवरण) चौहदी: उत्तर में — डीएसओ — 308, दक्षिण में — खुला, पूरब में — खुला, पश्चिम में — सीढ़ियां / लॉबी	मौतिक कब्जा	₹ 93,53,00,336.83 दिनांक 31.07.2018 से भविष्य का व्याज इत्यादि सहित	₹. 2,43,67,500/- ₹. 24,36,750/- ₹. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01:00 बजे से अर्पा. 05:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
100000	कर्जदार 1. मैसर्स विभा ओवरसीज एक्जिम प्रा. लि., 29, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली—110015 2. श्री आलोक गुप्ता, डी—9, महारानी बाग, नई दिल्ली—110065 3. श्रीमती विभा गुप्ता, डी—9, महारानी बाग, नई दिल्ली—110065 4. श्री पवन गुप्ता, मकान नं 12/6, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद—121005	अचल संपत्ति, मकान नं, सी–732, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 में स्थित, क्षेत्रफल 478.3 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती विभा गुप्ता पत्नी श्री अलोक गुप्ता के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर / पश्चिम में – सर्विस लेन, दक्षिण / पूरब में – 30' चौडी रोड, उत्तर / पूरब में – मकान नं. 731, दक्षिण / पश्चिम में – मकान नं. 733	भौतिक कब्जा	₹ 95,28,69,572.72 दिनांक 02.12.2014 तक और दिनांक 03.12.2014 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	रु. 16,00,00,000/- रु. 1,60,00,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	प्रवीण बंसल, 6. श्रीमती शकंतला देवी, 7. श्रीमती मंज बंसल, 8. श्री कृष्ण जोगंधियाम अग्रवाल, 9. श्रीमती	क) खसरा नं. 48 / 11, सुखी नाहर रोड़ (ड्राई कनाल रोड), असम टिम्बर मार्केंट, गाँव मुण्डका, नांगलोई, दिल्ली— 110041 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स राज कुमार अग्रवाल एण्ड संस (एचयूएफ) अपने कर्ता श्री राज कुमार बंसल के माध्यम से, चौहदी: उत्तर में — सम्पत्ति स्वामित्व मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राईजेज, दक्षिण में — सम्पत्ति स्वामित्व वी के नायर, पूरब में — 25फीट चौड़ी रोड, पश्चिम में — सुखी नाहर रोड़ (ड्राई कनाल रोड़) के माध्यम से संपत्ति में प्रवेश	सांकेतिक कब्जा	₹ 46,42,83,504/- और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित	रु. 1,86,00,000/- रु. 18,60,000/- रु. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
	कर्ता बसल, 10. श्रा सानू बसल, 11. श्रा वद प्रकार अग्रवाल, 12. मसस राज कुमार एड सस (एययूएफ), कर्ता राज कुमार बंसल, 13. ईश्वर चंद बंसल (एचयूएफ), 14. श्यामलाल किशन बंसल, श्री प्रवीन राजकुमार बंसल	ख) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि अब समेकित सर्वे नं. 491/2 के अनुसार (सर्वेक्षण संख्या 491/2 का समामेलन, एकड़ 3—36 गुंटास और 491/3 एकड़ 1—37 गुंटास) कुल क्षेत्रफल 23572.95 वर्ग मी. में से, गाँव — मिथ्बीरोहार, तालुका—गाँधीघाम, जिला — कच्छ, स्टेट—गुजरात में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कृष्णा जोगध्यान अग्रवाल के नाम पर है। चौहद्दी :(सेल डीड के अनुसार)	भौतिक कब्जा		₹. 9,74,00,000/- ₹. 97,40,000/- ₹. 1,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
		ग) रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 20, ब्लॉक—बी, एनयू—3, गाँधीधाम—कच्छ, क्षेत्रफल 336 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री श्यामलाल बंसल और श्री प्रवीन राजकुमार बंसल के नाम पर है। चौहद्दी : (सेल — कम—ट्रांसफर डीड के अनुसार), उत्तर में — प्लॉट नं. 11, दक्षिण में — परब में — प्लॉट नं. 19, पश्चिम में — प्लॉट नं. 21	सांकेतिक कब्जा		₹. 2,49,00,000/-	18-06-2021 अर्पा. 01.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक (10 मिनट के

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक

- प्लॉट नं. 11, दक्षिण में — पूरब में — प्लॉट नं. 19, पश्चिम में — प्लॉट नं. 21

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp को देखें

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिनांकः 26-05-2021, स्थान : नई दिल्ली

FINANCIAL EXPRESS

FRIDAY, MAY 28, 2021

GRM OVERSEAS LIMITED

CIN:L74899DL1995PLC064007

Regd. Off:128, FIRST FLOOR, SHIVA MARKET PITAMPURA North Delhi-110034 Email Id: grmrice1@gmail.com | Website: www.grmrice.com | Ph-011-47330330 | Fax No: 011-0180-2653673

Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for Quarter ended 31st March, 2021 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

	ř	1	Stand	lalone		Ì	Conco	lidated	t in Lakhs
	Particulars	-	_						
Sr. No.		Quarter Ended March 31, 2021	2020	Year Ended March 31, 2021 (Audited)	2020	Quarter Ended March 31, 2021	Quarter Ended March 31, 2020 (Audited)	2021	2020
		(Audited)				(Audited)			
1	Total Income from Operations	28,705.09	21,396.97	78,349.88	77,933.47	30,170.09	21,945.37	80,581.94	78,997.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,324.74	2,905.81	4,915.37	4,750.91	2,286.41	2,816.15	5,884.97	4,304.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,324.74	2,905.81	4,915.37	4,750.91	2,286.41	2,816.15	5,884.97	4,304.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	981.97	2,237.77	3,662.73	3,616.23	1,853.13	2,148.11	4,541.82	3,169.98
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	983.84	2,239.26	3,665.44	3,617.34	1,818.30	2,164.08	4,414.09	3,137.95
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/-) each	394.00	368.95	394.00	368.95	394.00	368.95	394.00	368.95
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2		13,351.57	9,608.37	M A	8	12,912.10	8,428.11
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)								
	1. Basic:	26.41	60.65	98.40	98.01	48.81	58.22	118.49	85.92
	2. Diluted:	26.41	60.65	98.40	98.01	48.81	58.22	118.49	85.92


1. The above is an extract of the detailed format of quartlerly/ annual Financial Results filed with the stock exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full formats of quartlerly/annual Financial results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and on the Company's website www.grmrice.com.

> For GRM OVERSEAS LIMITED Sd/-**Atul Garg**

> > Managing Director DIN-: 02380612

Date: 27/05/2021

Keeping Pace with Time Enhancing Ease of Living



Log in to our new portal:

www.incometax.gov.in

Income Tax Department proudly announces the launch of new portal www.incometax.gov.in in the service of our esteemed Taxpayers. The new portal will simplify all services, making it highly user-friendly for all users. The new portal will replace the current portal www.incometaxindiaefiling.gov.in.

Features of e-Filing 2.0



User-friendly and **Mobile Friendly** Portal



Easy step-by-step guidance with user manuals & videos



Helpdesk Support & Chatbot



Pre-filled Forms & Simplified **ITR Utility**

Mobile App

All New





Multiple Options for On-Portal Tax Payments

IMPORTANT

The e-filing portal will NOT be available during 1st - 6th June 2021. if you have to submit any response or avail any service please do it before or after these dates.



Income Tax Department Central Board of Direct Taxes

@IncomeTaxIndia @ @IncomeTaxIndiaOfficial @ @IncomeTaxIndiaOfficial 📵 @Income Tax India

For any queries, please contact: 1800 103 0025, 1800 419 0025



S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN: L74999MH1955PLC009593

Regd. Office: Devkaran Mansion, 36 Mangaldas Road, Mumbai - 400002 India Website: www.keva.co.in, E-mail: investors@keva.co.in | Tel No.: +91 22 21649163, Fax No: +91 22 21649161

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31, March 2021

Particulars	Quarter ended 31 March 2021	Quarter ended 31 Dec 2020	Quarter ended 31 March 2020	Year ended 31 March 2021	Year ended 31 March 2020
(57/160 A) F (57/160 A)	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	396.98	377.97	271.16	1,321.95	1,114.23
Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	53.16	50.69	18.08	180.77	89.79
(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	53.16	50.69	18.08	193.27	53.33
(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income	40.11	35.02	12.02	143.74	34.70
(after tax)]	37.09	35.96	18.18	140.72	37.75
Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as	141.32	141.32	141.32	141.32	141.32
per balance sheet of previous accounting year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	Colorata	200,277510	25	810.29	682.65
Basic :	2.91	2.56	0.91	10.48	2.56
Diluted:	2.91	2.56	0.91	10.48	2.56

Key numbers of standalone financial results:

Rs. i								
31 March 2021	31 Dec 2020	31 March 2020	31 March 2021	Year ended 31 March 2020 Audited				
220.85	186.35	177.21	761.01	718.82				
30.64 25.03	37.75 31.17	14.57 5.87	99.77 79.71	43.09 31.92				
	31 March 2021 Audited 220.85	31 March 2021 31 Dec 2020 Audited Unaudited 220.85 186.35 30.64 37.75	31 March 2021 31 Dec 2020 31 March 2020 Audited Unaudited Audited	31 March 2021 31 Dec 2020 31 March 2020 31 March 2021 Audited Unaudited Audited Audited 220.85 186.35 177.21 761.01 30.64 37.75 14.57 99.77				

The above consolidated financial results of S H Kelkar and Company Limited and its subsidiaries (collectively referred to as 'the

Group') and its Joint ventures were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 27 May, 2021 and subsequently approved

by the Board of Directors of S H Kelkar and Company Limited ('the Company') . The statutory auditors of the Company have

conducted audit of the above results for the quarter and year ended 31 March, 2021 pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "the Listing Regulations, 2015"). The audit report does not contain any qualifications. The above results are filed with the Stock Exchanges and available on Group website -www.keva.co.in. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 31 March, 2021 and year ended 31 March 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Listing Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 31 March, 2021 and year

ended 31 March, 2021 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website - www.keva.co.in Basic and Diluted earning per share for the quarter ended 31 March, 2021 and year ended 31 March, 2021 is adjusted for the effect of treasury shares held by the Company. For and on behalf of Board of Director

Place: Mumbai

Date: 27 May 2021 Director and Group CEO

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759

Registered Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91-22-4088 6090 Fax: +91-22-4019 4900 Website: www.edelweissarc.in E-mail: earc.cs@edelweissfin.com

Statement of Standalone Financial Results for the half year and the year ended March 31, 2021 Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

		Half	Year Ended	Year Ended		
	Particulars	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Audited)	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Audited)	
1	Total income from Operations	4,395.68	6,110.95	8,673.82	11,660.45	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,276.71	746.05	2,452.25	3,486.07	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,276.71	746.05	2,452.25	3,486.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	994.88	1,237.74	1,856.32	3,015.46	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	994.35	1,237.02	1,855.79	3,014.74	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,105.26	2,105.26	2,105.26	2,105.26	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	19,782.60	17,926.81	19,782.60	17,926.81	
8	Net worth ¹	22,219.86	20,364.07	22,219.86	20,364.07	
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	36,029.58	43,749.57	36,029.58	43,749.57	
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	
11	Debt Equity Ratio ²	1.62	2.15	1.62	2.15	
12	Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each)					
	- Basic (Not annualised)	4.72	5.88	8.81	14.32	
	- Diluted (Not annualised)	3.78	4.70	7.05	11.46	
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	_	
14	Debenture Redemption Reserve	884.38	1,341.57	884.38	1,341.57	
15	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.71	0.55	0.95	0.86	
16	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) ⁴	0.49	1.16	1.47	1.47	

¹Net worth = Share capital + Share application money pending allotment + Reserves & Surplus

²Debt-equity Ratio = (Debt securities + Borrowings (other than debt securities) + Deposits) / Net Worth ³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal Repayment in next 12 months)

⁴ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

Mumbai, May 26, 2021.

New Delhi

- The above is an extract of the detailed format of half yearly / annual financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of half yearly / annual financial results are available on the websites of the BSE Limited and the
- For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website - www.edelweissarc.in.
- The standalone financial results of the Company for the year ended March 31, 2021 are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 26, 2021. The results for the half year ended March 31, 2021 being the derived figures between audited figures in respect of full
- financial year ended March 31, 2021 and the published year to date figures up to the half year of the current financial year which was subject to limited reveiw by the Statutory Auditors of the Company. The results for the half year ended March 31, 2020 being the derived figures between audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2020 and the published year to date figures up to the half year ended September 30,
- 2019 which was subject to limited reveiw by the Statutory Auditors of the Company. The Company operates in a single reportable operating segment of distressed credit business as per the requirement o Ind AS 108 - Operating Segment.
- Reserve Bank of India (RBI) requires every Asset Reconstruction Company to create an Impairment Reserve by appropriating the difference between impairment allowance under Ind AS 109 and the provisioning required under earlier applicable Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) guidelines (including standard asset provisioning) from its Reserves to the said Impairment Reserve. Accordingly, the Company has created Impairment
- The COVID-19 pandemic outbreak across the world including India has resulted in most countries announcing lockdowns and guarantine measures that have sharply stalled economic activities across the world. The Indian Government too has imposed lockdowns starting from March 24, 2020. Subsequently, the national lockdown was lifted by the government for certain activities in a phased manner outside specified containment zones, but regional lockdowns/restrictions continued to be implemented in areas with a significant number of COVID-19 cases.

to the contraction in industrial and services output across small and large businesses. The impact of the COVID -19 pandemic, including the current "second wave" on Company's results, including credit quality and provisions, gain/loss on fair value changes, investment, remains uncertain and dependent on the current and further spread of COVID -19, steps taken by the government, RBI and other regulators to mitigate the economic impact and also the time it takes for economic activities to resume and reach the normal levels. The Company has maintained sufficient capital and liquidity position and it will continue the same going forward. In assessing the fair valuation of investment, recoverability of loans, receivables, the Company has considered internal

and external sources of information, including credit reports, economic forecasts and industry reports up to the date of

approval of these financial results. Since the situation is rapidly evolving, its effect on the operations of the Company may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results. The Company will continue to

The Indian economy is impacted and would continue to be impacted by this pandemic and the resultant lockdown, due

closely monitor material changes in markets and future economic conditions. For and on behalf of the Board of Directors of

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Rajkumar Bansal

Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 00122506



For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

